

सं 15 / नवंबर 2017, कोलोन  
#anugafoodtec

व्यापार मेला एवं अन्य: अनुगा फूड टेक 2018 का कार्यक्रम और कांग्रेस प्रोग्राम

पेय और खाद्य उद्योग के क्षेत्र में अनुगा फूड टेक एक अग्रणी अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता है। आनेवाले वर्ष 2018 में 20 से 23 मार्च तक होनेवाले प्रदर्शनी में एक बार फिर से 50 से अधिक देशों के लगभग 1,700 आपूर्तिकर्ता 140,000 वर्ग मीटर फैले प्रदर्शनी स्थान पर अपने नवीनतम खाद्य पदार्थों के उत्पादन और पैकेजिंग के विचारों को साझा करेंगे। इस वर्ष होनेवाले विशाल प्रदर्शनी के साथ एक बहुआयामी कार्यक्रम और कांग्रेस प्रोग्राम भी किया जाएगा। प्रदर्शनी में होनेवाले समूह- विशेष व्याख्यान, सम्मेलनों, मंचों, निर्देशित पर्यटन, विशेष शो और नेटवर्किंग इवेंट्स प्रदर्शकों और आगंतुकों में अतिरिक्त उत्साह लाते हैं। अनुगा फूडटेक 2018 का मुख्य विषय संसाधन कुशलता है। कांग्रेस प्रोग्राम का तकनीकी डिजाइन हमेशा की तरह डीएलजी जर्मन कृषि सोसाइटी द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

उत्पादन प्रक्रियाओं का अनुकूलन, ऊर्जा और पानी की खपत को कम करना, और खाद्य पदार्थों के नुकसान को कम करना: और भी बहुत कुछ जो अनुगा फूडटेक के आधे दिन के उद्घाटन सम्मेलन में सम्मिलित है एवं पूरी तरह से संसाधन कुशलता पर आधारित है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वक्ता विशेषज्ञ हैं Prof. Dr. Michael Braungart (scientific manager of Hamburger Umweltinstitut (HUI), Hamburg,), Prof. Dr. ir. Ruud Huirne (Directeur Food & Agri Nederland, Rabobank), Prof. Pierre Pienaar (President of the World Packaging Organisation) und Prof. Dr.-Ing. Alexander Sauer (Director, Institute for Energy Efficiency in Production EEP, University of Stuttgart). उद्घाटन सम्मेलन 20 मार्च को दोपहर 2 बजे कांग्रेस केंद्र पूर्व, यूरोप हॉल में होगा।

### अनुगा फूडटेक के विशेष मंच पर विविधता की गारंटी

अनुगा फूडटेक मंच खाद्य और पेय प्रौद्योगिकी, पैकेजिंग और वर्तमान और भविष्य के रुझानों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ जानकारी और परिवर्तन के लिए कई अवसर प्रदान करता है। उद्घाटन सम्मेलन के अलावा, फोरम में इस वर्ष के मुख्य विषय संसाधन दक्षता पर भी प्रकाश डाला जाएगा। विशेषज्ञ मंचों के कार्यक्रम में दो और विषय, रुझान और प्रौद्योगिकियां हैं, जो खाद्य उद्योग 'और' खाद्य सामग्री को संचालित करते हैं। निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत मंचों का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध है:

### मार्गदर्शित टूर: निर्देशित एवं सही सूचनाएं

निर्देशित टूर खाद्य और पेय उद्योग में विशिष्ट विषयों के एक सटीक और सूचनात्मक विवरण प्रदान करता है। टूर के रूप में, चयनित प्रदर्शक आगंतुकों से रूबरू होकर उनको अपने उत्पादों, प्रणालियों और कार्यों के बारे में ब्यौरा देते हैं। आगंतुक इस होनेवाले विभिन्न टूर कार्यक्रमों प्रतिदिन भाग ले सकते हैं निर्देशित टूर कार्यक्रमों में रोबोटिक्स, उद्योग 4.0, भरने और पैकेजिंग प्रौद्योगिकी, कसाईखाना प्रौद्योगिकी, डेयरी प्रौद्योगिकी और पैकेजिंग के नवीनतम सामग्री शामिल होंगे। पंजीकरण जोकि अत्यधिक अनुशंसित है 24 जनवरी से आरम्भ होगा। निर्देशित टूर के बारे में <http://www.anugafoodtec.de/aft/die-messe/events-und-veranstaltungen/veranstaltungssuche/index.php?tab=1&art=756>

### अनुगा खाद्यटेक 2018: विभिन्न प्रोग्राम

अनुगा फूड टेक 2018 के स्पीकर कॉर्नर में प्रदर्शक, विशेषज्ञों के समक्ष अपनी कंपनी, उत्पाद श्रृंखला और / या अपने नवीनतम विचार पेश करेंगे। व्यापार मेले में प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल में एक



Anuga FoodTec  
20.03.–23-03-2018  
www.anugafoodtec.de

Ihr Kontakt bei Rückfragen:  
Kathrin Munker  
Telefon  
+49 221 821-2528  
Telefax  
+49 221 821-3544  
E-Mail  
k.muenker  
@koelnmesse.de

Koelnmesse GmbH  
Messeplatz 1  
50679 Köln  
Postfach 21 07 60  
50532 Köln  
Deutschland  
Telefon +49 221 821-0  
Telefax +49 221 821-2574  
info@koelnmesse.de  
www.koelnmesse.de

Geschäftsführung:  
Gerald Böse (Vorsitzender)  
Katharina C. Hamma  
Herbert Marner

Vorsitzende des Aufsichtsrats  
Oberbürgermeisterin  
Henriette Reker

Sitz der Gesellschaft und  
Gerichtsstand: Köln  
Amtsgericht Köln, HRB 952

रोमांचक विषय पर कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। स्पीकर कॉर्नर पैसेज नंबर 4/5 में स्थित है इसके अलावा, व्यापार आगंतुक विशेष कार्यक्रम जैसे कि 'रोबोटिक्स पैक लाइन' या 'पैकेजिंग डिजाइन पर एक विशेष प्रदर्शनी - खुद को उत्साह से भरे' के लिए तत्पर हो सकते हैं। अनुगा फूड टेक अपने पूर्व अनुभव से प्रदर्शकों के कई लाइव प्रस्तुतियों के द्वारा प्रदर्शनी को परिपूर्ण बनाता है। वैसे आगंतुक जो किसी खास मशीन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, वे व्यापार मेले के शुरू होने के कुछ समय पूर्व मशीन के प्रदर्शन के समय के बारे में पता कर सकते हैं। इच्छुक पार्टियां कार्यक्रम खोज और विकल्प "विशेष खोज" / "विषय क्षेत्र" के माध्यम से संबंधित श्रेणियों और मशीन प्रदर्शन समय का लाभ उठा सकते हैं।

इस कार्यक्रम और कांग्रेस प्रोग्राम की सभी जानकारी और आवधिक अपडेट्स अनुगा फूड टेक के होमपेज पर पायी जाएगी

<http://www.anugafoodtec.de/aft/die-messe/events-und-veranstaltungen/index.php>

कोलोन व्यापार मेला – खाद्य एवं खाद्य टेक में वैश्विक सक्षमता - कोलोन व्यापार मेला खाद्य एवं पेय पदार्थों के प्रसंस्करण के कार्यक्रमों के आयोजन प्रमुख हैं। अनुगा, आईएसएम एवं अनुगा फूड टेक जैसे व्यापार मेले दुनिया भर में प्रमुख व्यापार मेले के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इस कोलोन व्यापार मेले के आयोजन न सिर्फ कोलोन में, बल्कि दुनियाभर के ग्रोथ मार्केटों में होता है, जैसे, ब्राज़ील, चीन, भारत, इटली, जापान, कोलंबिया, थाईलैंड, अमेरिका, अरब एमिरेट्स में विभिन्न मुख्य आकर्षण एवं विषय सूची के साथ इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस वैश्विक गतिविधि के माध्यम से कोलोन व्यापार मेला अपने ग्राहकों को खास कार्यक्रम देता है, जो की उनके व्यापार को चिरस्थायी एवं अंतर्राष्ट्रीय बनाने की गारन्टी देता है।

अधिक जानकारी: <http://www.global-competence.net/food/>

#### आगामी कार्यक्रम:

प्रोस्वीट्स कोलोन, कोलोन, जर्मनी, 28.-31.01.2018

अनुगा फूडटेक, कोलोन, जर्मनी, 20.- 23.03.2018

अनुटेक ब्राज़ील, कुरितिबा, ब्राज़ील, 7. – 9.08.2018

#### संपादन के लिए टिप्पणी :

अनुगा फूडटेक से फोटो सामग्री प्राप्त करने के लिए इंटरनेट पर "प्रेस " के अंतर्गत हमारे इमेज डेटाबेस को देखें। [www.anugafoodtec.de](http://www.anugafoodtec.de) .

प्रेस-विज्ञप्ति के लिए देखें [www.anugafoodtec.de/Presseinformation](http://www.anugafoodtec.de/Presseinformation)

कृपया प्रिंट के लिए वाउचर प्रति जमा करें

#### फेसबुक पर अनुगा फूड टेक

<https://www.facebook.com/anugafoodtec>

#### ट्विटर पर अनुगा फूडटेक

<https://www.twitter.com/anugafoodtec>

**पूछताछ हेतु संपर्क नं:**

Kathrin Munker  
संपर्क अधिकारी

पृष्ठ  
3/3

Koelnmesse GmbH  
Messeplatz 1  
50679 Köln  
Germany  
Telefon: +49 221 821-2528  
Telefax: +49 221 821-3544  
k.muenker@koelnmesse.de  
www.koelnmesse.de